

संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा - मुख्य परीक्षा
(Download) UPSC Mains 2002 General Studies Question
Paper
सामान्य अध्ययन-I

Exam Name: UPSC IAS Mains General Studies (Paper-1)

Year: 2002

प्रश्न पत्र -I- 2002

समय: तीन घंटे

पूर्णांक: 300

1. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए: (लगभग 250 शब्दों में) 30

(क) बटलर समिति रिपोर्ट क्या थी ? इस रिपोर्ट पर भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई ?

(ख) जिन्ना ने सी. आर. पफार्मुला को क्यों अस्वीकार किया था ?

2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए: (प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में) 2×15=30

(क) ब्रिटेन में भारतीय स्व-शासन आन्दोलन के विकास का निरूपण कीजिए ।

(ख) भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोणों का मूल्यांकन कीजिए ।

(ग) 'डिकी बर्ड प्लान' की समीक्षा कीजिए ।

3. निम्नलिखित के बारे में लिखिए: (प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में) 30

(i) आनन्दमठ

(ii) बिस्मिल्लाह खान

(iii) क्रिस एवर्ट

(iv) चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज़

(v) धर्म सभा

(vi) डिवाइड-एट-एम्पेरा

(vii) दांडी प्रयाण

(viii) गेरी कैस्पेरोव

(ix) केशव चन्द्र सेन

(x) निवेदिता

(xi) पेले

(xii) रैदास

(xiii) सत्याग्रह

(xiv) स्टेपफी ग्राफफ

(xv) थियोडोर बैंक

4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए (प्रत्येक लगभग 125 शब्दों में) 2×10=20

(क) असम तथा पश्चिम बंगाल के चाय बागानों का विवरण दीजिए तथा इनके आर्थिक महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

(ख) ग्रीष्मकालीन मानसून)तु में भारत के पवनों एवं वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए।

(ग) 'संवृद्धि केन्द्र' की अवधारणा की परिभाषा दीजिए तथा भारत में प्रादेशिक आयोजना में इसकी सार्थकता का मूल्यांकन कीजिए।

5. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए (प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में) 5×2=10

(i) भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम

(ii) झूम कृषि - प्रक्रिया एवं परिणाम

(iii) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

(iv) जनगणना द्वारा दी गई नगरी स्थानों की परिभाषा

(v) खेतड़ी ताँबा परियोजना

6. निम्नलिखित में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए: (लगभग 250 शब्दों में) 30

(क) 'त्रिशंकु संसद के मुद्दे का भारतीय सरकार के स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।' इस कथन की विवेचना कीजिए तथा इंगित कीजिए कि सरकार की राष्ट्रपति शासन प्रणाली में परिवर्तन इस समस्या का किस सीमा तक हल होगी।

(ख) भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, मंत्रीगण, विधायकों एवं न्यायपालिका के सदस्यों के लिए शपथ के अलग-अलग रूप क्यों दिए गए हैं? उनके महत्त्व की विवेचना कीजिए।

7. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए: (लगभग 250 शब्दों में) 30

(क) भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है? यह संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका कहाँ तक निभाता है।

(ख) भारत का संविधान कैसे संशोधित किया जाता है? क्या आप यह मानते हैं कि संशोधन की कार्यविधि संविधान को केन्द्र के हाथों का खिलौना बना देती है?

8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए: (प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में)

(क) राज्यों को बाध्यकारी न्यायालय में विचार के अयोग्य निदेशों सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों का विवेचन कीजिए।

(ख) भारत में संसदीय चुनावों के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के तरीकों का वर्णन कीजिए।

(ग) लोक लेखा समिति की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

9. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए: (प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में) 5×2=10

(i) भारतीय संविधान के 84वें संशोधन का क्या महत्त्व है?

(ii) संघीय सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अन्तर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने की भूमिका निभाती है?

(iii) अस्थायी अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है?

(iv) विधान मंडल के 'पंगु सत्र' का क्या तात्पर्य है?

(v) भारत में स्थानीय प्रशासन की परिधि में 'सीमान्त क्षेत्रों' का क्या अर्थ है?

10. निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए: (लगभग 250 शब्दों में) 30

(क) भारतीय गणतंत्रा के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचकगण का संघटन क्या है? डाले गए वोटों के मूल्य की गणना

किस प्रकार की जाती है ?

(ख) 'जेव-प्रौद्योगिकी धमाका भारत के लिए स्वर्णिम मार्ग खोल सकता है।' चर्चा कीजिए।

11. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए: (प्रत्येक लगभग 125 शब्दों में) 2×10=20

(क) भारत के हाल के दौरे में इन्डोनेशिया की राष्ट्रपति मेगावती सुकर्नोपुत्रा की मुख्य रणनीतिक चिंताएँ क्या थीं ?

(ख) 'ट्राइपेफड' क्या है ? इसके उद्देश्य क्या हैं?

(ग) सिलीगुड़ी - बागडोगरा पट्टी में चावल की कँटीली किस्म में आती हुई कमी ने मनुष्य-पशु संघर्ष पर किस प्रकार प्रभाव डाला है ?

12. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए (प्रत्येक लगभग 125 शब्दों में) 2×10=20

(क) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्या हैं?

(ख) मरूस्थल विकास कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में लिखिए।

(ग) 'विकलांगों के कल्याण' के लिए कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप में लिखिए।

13. निम्नलिखित के बारे में लिखिए: (प्रत्येक लगभग 20 शब्दों में) 2×5=10

(i) प्रोफेसर बी.पी. सिन्हा

(ii) मेजर जनरल एस.एस. शर्मा

(iii) कोडापल्ली सीतारमैया

(iv) औंग सान् सू कयी

(v) थेलासरी, केरल